



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 1979/भद्र 2, 1901  
No. 272] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 1979/BHADRA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधियुक्त

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 514 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और

बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 26-सीमा-शुल्क, तारीख 24 फरवरी, 1977 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ (3) में, "10 रु. प्रति किलोग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "15 रु. प्रति किलोग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

[सं. 183/फा. सं. 347/1/78-टी. आर. यू. (पी. टी.)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 1979

CUSTOMS

**G.S.R. 514(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 26-Customs, dated 24th February, 1977, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against S. No. 2, in column (3), for the letters, figures and words "Rs. 10 per kilogram", the letters, figures and words "Rs. 15 per kilogram" shall be substituted.

[No. 183/F. No. 347/1/78-TRU(Pl.)]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.